

ईश्वरीय
खजाना
टीम
Presents

विशेष पुरुषार्थ

तीव्रता से आगे बढ़ने की श्रेष्ठ युक्तियां

यह श्रेष्ठ पुरुषार्थ की
भिन्न भिन्न युक्तियाँ
बाबा की रोज
जैसे मीठी थपकी है
अन्तर्मन में
जो समा ले इसे
जीवन में उसकी सफलता
शत प्रतिशत पक्की है...

सदा खुश रहो बच्चे



जब हम दूसरों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो,
अपने जीवन में निर्विघ्न बन आगे बढ़ सकते हैं।



साइड-सीन्स को देख घबराओ नहीं

बापदादा- 16.12.2000

अभी तक कई बच्चों को खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। छोटी-छोटी बातों के खिलौने से खेलना, छोटी बात को अपनाना, यह समय गँवाते हैं। यह साइडसीन्स हैं। भिन्न-भिन्न संस्कार की बातें वा चलन यह सम्पूर्ण मंजिल के बीच में साइडसीन्स हैं। इसमें रुकना अर्थात् सोचना, प्रभाव में आना, समय गँवाना, रुचि से सुनना, सुनाना, वायुमण्डल बनाना... यह है रुकना, इससे सम्पूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हैं। मेहनत बहुत, चाहना बहुत, 'बाप समान बनना ही है', शुभ संकल्प, शुभ इच्छा है लेकिन मेहनत करते भी रूकावट आ जाती है। दो कान हैं, दो आँखें हैं, मुख है तो देखने में भी आता, सुनने में भी आता, बोलने में भी आता, लेकिन बाप का बहुत पुराना स्लोगन सदा याद रखो - 'देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अन्दर नहीं समाओ, फैलाओ नहीं'। यह पुराना स्लोगन याद रखना जरूरी है क्योंकि दिन-प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब चुकू हो रहे हैं, ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियाँ भी सबकी निकलके खत्म होनी है, इसीलिए घबराओ नहीं कि अभी तो पता नहीं और ही बातें बढ़ रही हैं, पहले तो थी नहीं। जो नहीं थी, वह भी अभी निकल रही हैं, निकलनी हैं। आपके समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। क्या 10 साल पहले वाले पेपर आयेंगे क्या? बी.ए. के क्लास का पेपर, एम.ए. के क्लास में आयेगा क्या? इसलिए घबराओ नहीं, क्या हो रहा है। यह हो रहा है, यह हो रहा है... खेल देखो। पेपर तो पास हो जाओ, पास-वर्द्धि-ऑनर हो जाओ। बापदादा ने पहले भी सुनाया है कि पास होने का सबसे सहज साधन है, बापदादा के पास रहो, जो आपका काम का नज़ारा नहीं है, उसको पास होने दो, पास रहो, पास करो, पास हो जाओ।



रोज़ बिच बिच में ऐसे ५ मिनट
बिल्कुल अशरीरीपन का अनुभव
करते रहो क्योंकि आगे समय बहुत
नाजुक आने वाला है। ऐसे टाइम पर
अगर यह अभ्यास नहीं होगा,
कन्ट्रोलिंग पाँवर नहीं होगी तो
सक्सेस नहीं हो सकेंगे।..

सभी को बापदादा इशारा दे रहे हैं
की रोज़ यह प्रैक्टिस करते रहना।
ऐसा समय आयेगा जो यह प्रैक्टिस
बहुत-बहुत आवश्यक लगेगी।

Avyakt Murli - 09-03-2013



**" जहां मेरापन होगा वहां ममता होगी।
ममता वाले को गृहस्थी कहेंगे, ट्रस्टी नहीं। "**

अगर ट्रस्टी बन जाते हो तो न्यारे और प्यारे होने से एकरस हो जाते। जब गृहस्थी है तो अनेक रस हैं, मेरा-मेरा बहुत हो जाता है। कभी मेरा घर, कभी मेरा परिवार ... और गृहस्थिपन अर्थात् अनेक रसों में भटकना। ट्रस्टीपन अर्थात् एकरस। ट्रस्टी सदा हल्का और सदा चढ़ती कला में जाएगा। जरा भी मेरापन है, तो मेरा माना गृहस्थीपन। जहां मेरापन होगा वहां ममता होगी। ममता वाले को गृहस्थी कहेंगे, ट्रस्टी नहीं।

Avyakt Murli - 12.10.1981




BRAHMA KUMARIS
Education Wing, Mount Abu



/AvyaktMurliEssence

Situation:

Whenever I do something nice, I want to be recognised and want others to appreciate me and my work, but I usually find that the more I look for recognition the less I get, so I end up feeling disappointed when I don't get the desired recognition.



Brahma Kumaris

● आज का सुगन्धित पुष्प ●

Fragrant Flower For Today



आपका निश्चय दृढ़ है इसलिए विजय निश्चित है।




आप परमात्म स्नेही हो। 😊



Your faith is strong and so victory is certain.

You are dear to God! 😊





Brahma Kumaris Websites

Main BK website www.shivbabas.org OR
www.brahmakumari.org (by SBS team)

Int'l website: www.brahmakumaris.org

India website: www.brahmakumaris.com

BK Sustenance website:
www.bksustenance.net

All Data hosted on www.bkdrluhar.com

Murli Websites: babamurli.net
and madhubanmurli.org

www.omshantimusic.net

www.bkgoogle.org

www.bksewa.org

www.bkinfo.in

www.bk.ooo

www.brahmakumari.org/centres

NEW

www.IshvariyaKhajana.BKhq.org